

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण,)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 12 जनवरी 2016—पौष 22, शक 1937

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2016

क्र. एफ-65-01-2015-तीन-नपा-09.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरीय निकायों के उप निर्वाचन 2015 (उत्तरार्द्ध) में माह दिसम्बर को पार्षद पद के लिए निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं :—

क्रमांक	नगरपालिका परिषद्/ नगर परिषद् का नाम, जिले का नाम सहित	पद अर्थात् पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद हेतु अंकों में	शब्दों में	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	नगरपालिका परिषद् सारणी, जिला बैतूल.	पार्षद	22	बाईस	वंदना सुखदेव वामनकर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
2	नगर परिषद् रनापुर, जिला झाबुआ.	पार्षद	14	चौदह	दिलीप बच्चु डामोर	इंडियन नेशनल कांग्रेस

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,
हस्ता./—

(सुनीता त्रिपाठी)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.